



स मा चार

मध्यप्रदेश विधानसभा के 44 कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित
आवास आवंटित होने पर कर्मचारियों ने किया विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत

विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने मुख्यमंत्री का आभार जताया

भोपाल, 27 जुलाई। मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के 44 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पारी बाहर शासकीय आवास मध्यप्रदेश शासन द्वारा आवंटित किया गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम के प्रयासों से लंबे इंतजार के बाद इन कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित हुआ है। मंगलवार को हितग्रही कर्मचारियों ने विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम का स्वागत कर कृतज्ञता ज्ञापित की।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि विधानसभा के तृतीय श्रेणी लंबे समय से शासकीय आवास की प्रतीक्षा कर रहे थे। शासकीय आवास आवंटित हो जाने से इन जरूरतमंद परिवारों को बड़ी मदद हो सकेगी। श्री गौतम ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर पात्र कर्मचारियों को पारी बाहर आवास आवंटित करने के लिए अनुरोध किया था। श्री गौतम ने आवास आवंटन पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है।

जिन कर्मचारियों को पारी बाहर शासकीय आवास आवंटन हुआ है उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में स्वीपर, भृत्य, फर्श, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, बुक लिफ्टर जैसे पदों पर कार्य करने वाले 29 कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें आई टाइप आवास आवंटित किया गया है। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी में प्रभारी सहायक ग्रेड-1, प्रभारी सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टाइपिस्ट, सुरक्षा गार्ड एवं लिफ्टमैन के पदों पर कार्य करने वाले 15 कर्मचारी शामिल हैं। शासकीय आवास प्राप्त करने वालों में 18 महिला कर्मचारी हैं।

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव